



प्रेस नोट

दिनांक 23.04.2021

थाना हसनपुर पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर मय अवैध शस्त्रों (02 तमंचा व कारतूस 315 बोर) व चोरी के माल सहित गिरफ्तार ।

अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमति सुनीति पुलिस अधीक्षक अमरोहा के नेतृत्व, श्री अजय प्रताप सिंह अपर पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी हसनपुर श्री सतीश पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में थाना हसनपुर पुलिस द्वारा कल दिनांक 22.04.2021 को चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों को अवैध शस्त्रों व चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया गया ।

अवगत कराना है कि दिनांक 07/08.04.2021 की रात्रि वादी प्रमोद शर्मा पुत्र खान चन्द्र शर्मा निवासी मौ0 राजपूत कालोनी कस्बा व थाना हसनपुर की किराना स्टोर की दुकान में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करने के सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर थाना हसनपुर पर मु0अ0स0 150/2021 धारा 380 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया । चोरी की घटना के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्रीमती सुनीति द्वारा प्रभारी निरीक्षक थाना हसनपुर को उक्त चोरी की घटना का सफल अनावरण व अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम में कल दिनांक 22.04.2021 को थाना हसनपुर पुलिस द्वारा उक्त किराना की दुकान में चोरी की घटना में प्रकाश में आये 02 अभियुक्त 1. अमन पुत्र गुड्डू को मय एक तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर व 2. जोगेन्द्र पुत्र प्रीतम को मय एक तमंचा व 01 कारतूस 315 बोर व चोरी के माल रिफाइंड ऑयल केन, 04 बोतल सरसों का तेल, 08 डब्बी सिगरेट, पानी की कैन व नगद 1300/- रुपयों सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना हसनपुर पर मु0अ0स0 173 /21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम अमन व मु0अ0स0 174/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम बनाम जोगेन्द्र के विरुद्ध पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. अमन पुत्र गुड्डू निवासी मौ0 खेवान कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. जोगेन्द्र पुत्र प्रीतम निवासी मौ0 खेवान कस्बा व थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

बरामदगी:-

1. 02 तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस 315 बोर ।
2. चोरी का माल रिफाइंड ऑयल केन, 04 बोतल सरसों का तेल, 08 डब्बी सिगरेट, पानी की कैन व नगद 1300/- रुपये ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अमन:-

1. मु0अ0स0 150 /21 धारा 380/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0स0 173 /21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0स0 57/20 धारा 380/457/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
4. मु0अ0स0 58/20 धारा 380/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
5. मु0अ0स0 274/20 धारा 380/457/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
6. मु0अ0स0 606/20 धारा 380/457/506 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
7. मु0अ0स0 615/20 धारा 4/25 आयुद्ध अधि0 थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त जोगेन्द्र:-

1. मु0अ0स0 150/21 धारा 380/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. मु0अ0स0 174/21 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. मु0अ0स0 274/20 धारा 380/457/411 भादवि थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री संजय तोमर थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
2. उ0नि0 श्री सुक्रमपाल राणा थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।
3. हे0का0 184 राजकुमार मलिक थाना हसनपुर जनपद अमरोहा ।